Jaykay Enterprises Limited



JKEL/CS/108-II/2021-22/

Date: August 24, 2022

The Bombay Stock Exchange Ltd. Corporate Relationship Department Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, <u>Mumbai – 400 001</u> Scrip Code: 500306 Fax No. 022 – 22722041, 22722039, 22723132

Through: Online Filing

In Re: <u>In Compliance of Circular no. 20/2020, dated 5th May, 2020 and applicable</u> provisions of the Companies Act, 2013 read with Rules made thereunder

Sub: <u>A public notice by way of News Paper Advertisement –Before Sending the</u> <u>Notices of 76th Annual General Meeting to be held on September 20, 2022</u>

Sir,

Pursuant to the Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosures Requirements) Regulation, 2015 we are enclosing a copy of the Newspaper excerpts of the advertisement published on August 24, 2022 on the subject matter in following Newspapers:-

- 1. **THE FINANCIAL EXPRESS** (English) Editions: Ahmedabad, Bengaluru, Chandigarh, Chennai, Hyderabad, Kochi, Kolkata, Lucknow, Mumbai, New Delhi & Pune;
- 2. JANSATTA (Hindi) Editions: Chandigarh, Kolkata, Lucknow/Kanpur & New Delhi

Kindly take the same on your records and acknowledge receipt.

Thanking you,

Yours sincerely, For Jaykay Enterprises Ltd.

Abhishek Pandey Company Secretary M. No. ACS-21958

Encls: As Above



Regd. Office: Kamla Tower, Kanpur-208001 (INDIA) Phones: +91 512 2371478 - 81, Fax: +91 512 2332665 E-mail : cs@jaykayenterprises.com, Web : www.jaykayenterprises.com



Investment Manager: Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited (AMC) Corporate Identity Number (CIN): U65991MH2003PTC142972

Registered Office: Crescenzo, 7th Floor, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra - East, Mumbai - 400 051. Website: www.barodabnpparibasmf.in · Toll Free: 18002670189

NOTICE NO. 64/2022

This is with reference to Notice No. 63/2022 dated August 21, 2022 informing the investors/unit holders about record date for distribution under Income Distribution cum Capital Withdrawal ("IDCW") Options of the Schemes stated therein. As stated in the notice dated August 21, 2022, in case the record date falls on a day which is not a Business Day, the record date shall be the immediately following Business Day. Accordingly, the record date for the distribution under IDCW Options as per the said notice ad shall be Monday, August 29, 2022.

For Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited

(Formerly BNP Paribas Asset Management India Private Limited)

(Investment Manager to Baroda BNP Paribas Mutual Fund)

Sd/-Authorised Signatory Date : August 23, 2022 Place : Mumbai

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS. READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.



POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTIES)

Whereas the undersigned being the authorized officer of the Shubham Housing Development Finance Company Limited (hereinafter called Shubham) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice calling upon borrowers to repay the amount within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described hereinbelow in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the SecurityInterest Enforcement) Rules, 2002.

The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of Shubham Housing Development Finance Company Limited for an amount detailed below and interest thereon

The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to

S. No.	Loan No/Borrower(s), Co-Borrower	Demand Notice Amount	Date of Demand Notice		ured Asset		Date of Affixation		IndoStar Capi Registered Office - One World Cent
£	0PRV2009000005029688, UTTAM DAS, LATA DAS	Rs. 15,33,295/-	20-05-2022	Flat Bearing No. 301, On Thi Floor) Built On Property Bea No. 74, Khasra No. 82/21, Del Enclave, South West Delhi -1	ring Municip Ihi State, Co	pal No. RZ-G- 74, Plot			S B Marg, N Brand
2.	0DWM2011000005031695, Shekhar, Barakha	Rs. 9,43,798/-	20-05-2022	First Floor (without roof rights) 79/6/1, Village Hastal, Om Vi West Delhi -110059					NOTICE UNDER SECTION 13 (2) OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCE
3.	0DEL1607000005000875, Mahesh Hirwani, Savita Hirwa	Rs. 10,00,906/-	20-05-2022	Plot. No 14, 15, Khasra No. 1 Loni , Ghaziabad Uttar Prade			20/08/2022	mentioned	rsigned as the authorized officer of M/s Indosta Borrower (S) / Co- Borrower (S) / Guarantor (S)
	0PRV1708000005007472, Mukesh Kumar, Neena Sarsa	Rs. 10,91,686/-	20-05-2022	Property No. RZ-D-2/72, Gr No. 758/99, Mahavir Enclave			20/08/2022	(S)advance	ent of the amount i.e. principal as well as the inte d to them by M/s Indostar Capital Finance I ming Assets (N.P.A's) of the company. Accord
s.	0PRV1706000005006416, Mamta Saboo, Arun Saboo		20-05-2022	1445, C/13, 4th Floor, Khasra Roof Right South Delhi - 1100	19	28		Section 13	(2) of Securitization and Reconstruction of Fina their last Known addresses through India Post or
8	0REW1803000005011856, Vijay Pal, Kamlesh	Rs. 12,36,354/-	28-05-2022	House No- DD-22, Khewat N and Killa No. 28//2/2/11-0, Mahendragarh, Haryana-12	Dhanunda	, Tehsil Mandi Ateli,		is apprehen Guarantor (ided that the parties mentioned here-in are avoid S) named bellow are hereby intimated by way of ailed and also for which securities have been created
	ce:- Gurgaon, te:- 23-08-2022	(SHUBHAM	HOUSING DEVELOP	MENT F	Authorize		10000000000000000000000000000000000000	e of the Borrower / Co-Borrower & Address
Pro now oar Rec outs con Sec	POONAWALLA HOUSING FINANCE LEVE CREATE FINANCE LEVE CREATE FINANCE LEVE CREATE FINANCE LEVE CREATE FINANCE Perty facility (ies) by mo renamed as Poonawa r/s was classified as No construction of Financia standing dues sent on tents of which are bein surity Interest (Enforcem ails of the Borrowers, Co	(FORMERLY REGD.OFFIC NO. 79/1, GH Borrowers/ C ortgaging your illa Housing Fi on-Performing al Asset and I last known ac og published h uent) Rules, 20	KNOWN ASM/ E:602, 6TH F ORPADI, MU o-borrowers Immovable nance Ltd " Assets. A D Enforcemen ddresses ho erewith as 02 as and by	e property/ies from Ma PHFL". You defaulted emand Notice under it of Security Interest owever the same hav per Section 13(2) of t y way of Alternate Serv	LTD.) RK, SR. 11036 Ivailed H agma Ho d in repa Section Section Act 200 ve return the Act r vice upon	UNDER SECTIO THE SARFAES lome loans/Loar using Finance La yment and there 13(2) of Securitis 2 for the recover ned un-served. He ead with Rule 3 you.	N 13(2) OF I ACT,2002 Ins against td "MHFL" fore, your sation and ery of the Hence the (1) of The	ELECTRIC PLOT NO INDUSTRI (Co-Borro NEEDO E LIMITED P INDUSTRI 3) Mrs. PO PP- 118 M DELHI 110 Loan No - 1	SDEL05118-190003265
Sec	tion 13(2) and Amount c			en as under	I DEMAND	10		Guarantor (being taken for substituted service of the un-se S) are advised to make the payments of amount
SR. 10. 1.	CO-BORROWER, GUARANTOR AND LOAN AMOUNT SUSHRI SARKAR, SUDIPTO MITRA O LOAN AMOUNT: A RS.883991.13P G LOAN NO: T	F PART OF PL DMEASURING RAMFARRUKHAB, EHSIL & DIST- LU	SECURED ND PARCEL OF OT OVER K AREA 750 AD CHILAWAN ICKNOW. BOU		NOTICE DATE 13-07-2022		RUPEES TEN THOUSAND HIRTY EIGHT SAS ONLY) H FURTHER	with Indosta under the p Act, 2002 a	
2.	SOUMYA KHARE, AADYA A LOAN AMOUNT: A RS.2215546.66P S LOAN NO: N. HM/0043/H/17/100149 P	GNU, SOUTH:- 15 F LL THAT PIECE AN F HOUSE BUILT OF DMEASURING 100 IKANDARPUR, PA AGAR, & DIST. LL	T WIDE ROAD ND PARCEL OF N PLOT NO.04, 1 00 SQ FTS, SITI NRAGNA- BIJN JCKNOW. BOU VEST:-25 FT WI	MORTGAGED PROPERTY OVER KHASRANO.582 MIN, UATED AT GRAM BANTHRA IOUR, TEHSIL- SAROJANI INDED AS BELOW: EAST:- DE ROAD, NORTH:- HOUSE	13-07-2022	REPAYMENT.	(RUPEES ACS EIGHTY ND EIGHT AND NINETY TOGETHER NTEREST @		CAP Rec CAPITAL IND
3.	SRI SAI KRISHNAOJWELLERS,MPRIYANKA SONIMLOAN AMOUNT:BRS.2013381.53PW	F HOUSE BUILT C IN, ADMEASURIN ALHPUR, WARD-H OUNDED AS BELC	on Part of Pl Ng 750 SQ I Iaiderganj, T DW: East:- Hou Road, North:	-12 FT WIDE ROAD, SOUTH:	13-01-2022		G (RUPEES SIXTY ONE HUNDRED EIGHTY SIX TOGETHER NTEREST @		Corporate Identity Numl © Regd. Office: 2nd Floor, DLF © Ph. 1 © Corporate Office: Level - 2 Worli, Mu © Ph. 1 © Website: www.capitalindia.co
mer Noti mer rest con: PLAC	the Borrower/s and Co ationed demanded amo ce failing which the un ationed security/ies. Ple rained from transferrin sent. E: LUCKNOW : 24.08.2022	ount with furth dersigned sha ease Note that	er interest a all be constr t as per Sec referred sec	as mentioned hereina ained to take action u ction 13(13) of The S curities by way of sal FOR POONAWAL FORMERLY KNOWN AS	bove in under the aid Act, ` e, lease _LA HOU S	full within 60 Da act to enforce You are in the m or otherwise w SING FINANCE L A HOUSING FINAN	ays of this the above neanwhile, ithout our TD		INFORMATION REGARDING THE 2 THROUGH VIDEO CONFERENT I. Notice is hereby given that the 28 th An India Finance Limited ("Company") will Means ("VC/OAVM") on Friday, Sep businesses as set out in the Notice of Companies Act, 2013 ("Act") and the ru India (Listing Obligations and Disclosure read with all the applicable circulars in Securities and Exchange Board of India (
	aykay En		ses L	imited		JK	(E		The members can attend and participal presence at a common venue. The mem for the purpose of reckoning the quorus 2. Dispatch of Notice and Annual Report In compliance with the Circulars, electr

FINANCIAL EXPRESS

FINANCE RELIANCE HOME FINANCE LIMITED DEMAND RELIANCE NOTICE

Branch Office: 6th Floor, Synergy Tower, A-13/1, Block-A, Sector-62, Noida - 201301 Registered Office: - The Ruby, 11th Floor, North-West Wing, Plot No. 29, Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai 400028

Whereas the borrowers/co-borrowers/guarantors/mortgagors mentioned hereunder had availed the financial assistance from Reliance Home Finance Ltd. We state that despite having availed the financial assistance, the borrowers/guarantors/mortgagors have committed various defaults in repayment of interest and principal amounts as per due dates. The account has been classified as Non Performing Asset on the respective dates mentioned hereunder, in the books of RHF in accordance with the directives relating to asset classification issued by the National Housing Bank consequent to the Authorized Officer of Reliance Home Finance Ltd. under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 & in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notices on respective dates mentioned herein below under Section 13(2) of SARFAESI Act, 2002 calling upon the following borrowers /guarantors /mortgagors to repay the amount mentioned in the notices together with further interest at the contractual rate on the amount mentioned in the notices and incidental expenses, cost, charges etc until the date of payment within 60 days from the date of receipt of notices.

The notices issued to them on their last known addresses have returned un-served and as such they are hereby informed by way of public notice same.

Name of The	Co-Borrower	NPA Date	Outstanding	Loan	PROPERTY ADDRESS OF		
Borrower / Address	And Guarantor Name	Date of Demand Notice	Amount	Amount	SECURED ASSETS		
SHISHIR DUA 28/98 3RD FLOOR WEST, PATEL NAGAR,	MONIKA DUA	16-Aug-22	Rs. 87,28,491/- As on 17th - Aug-22 (against	Rs. 1,03,00,000/-	alongwith 22.5% of undivided share of		
DELHI-110008		17-Aug-22	Loan Account No. RHHLDEL0000 31028		parking in Stilt Area, out of free hold proper bearing No. 38/1, constructed on la measuring 200 Sq. Yds. Situated in the ab of West Patel Nagar, New Delhi-110060		
SHIV SHANKAR KUMAR FLAT NO.142, PLOT NO.	, PLOT NO.		Rs. 20,62,371/- As on 30th July-22 (against	Rs. 41,18,378/-	All that part and parcel of property bearing Flat No-1601, 16th Floor, Tower-F, Havin Super Area 1455 Sq. Ft., Mangalya Ophin		
08, DWARKA SECTOR 04, SOUTH DELHI APARTMENT, DELHI- 110078		1-Aug-22	Loan Account No. RHHLDEL0000 29614		Plot No. 16 F, Sector-1, Greater Noida Wes Noida, Uttar Pradesh-201308		

the circumstances as aforesaid, the notice is hereby given to the above borrowers, co-borrowers and/or their guarantors (where ever applicable) to pay the outstanding dues as mentioned above along with future interest and applicable charges within 60 days from the date of the publication of this notice failing which further steps will be taken after the expiry of 60 days of the date of this notice against the secured assets including taking possession of the secured assets, of the borrowers and the mortgagors under Section 13(4) of Securitisation and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 and the applicable rules thereunder.

Please note that under Section 13 (13) of the said Act, no Borrower shall, transfer by way of sale, lease or otherwise any of his secured assets referred to in the notice, without prior written consent of the secured creditor. Dated: 24-August-2022 Place: Delhi/ Noida

Sd/- (Authorized Officer), Reliance Home Finance Limited.

IndoStar Capital Finance Limited

Registered Office - One World Centre, Tower 2A, 20th Floor, Jupiter Mills Compound, INDOSTAR S B Marg, Mumbai - 400013, India

Branch Office - Delhi

TICE UNDER SECTION 13 (2) OF SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF INANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002.

ed as the authorized officer of M/s Indostar Capital Finance LTD, hereby give the following notice to the below rower (S) / Co- Borrower (S) / Guarantor (S) who have grossly failed to discharge their legal liability i.e. defaulted in of the amount i.e. principal as well as the interest and other charges accrued there-on for Loan (S) Against Property them by M/s Indostar Capital Finance LTD and as a consequence there-of, the Loan (S) have become Assets (N.P.A's) of the company. Accordingly, Notice (S) dated -23rd July 2022were issued to them under of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security interest Act, 2002 and rules. r last Known addresses through India Post on 28" July 2022, however the same have been returned un-served and it I that the parties mentioned here-in are avoiding the service of the same, as such the Borrower (S) / Co-Borrower (S) amed bellow are hereby intimated by way of this publication notice to clear their entire outstanding dues for the loan and also for which securities have been created by them as detailed under:

Description of the

Security

Notice Date &

Amount(S) Demanded

		टान बेंद सरकार का ज		\$			
		Δ :	इलाहाबाद		ALLA	HABAD	
Bar Act Sec acc acc in g exe the cau of li acc	rlier Notice d of Financia Whereas, wik) under Sec 2002 (54 of 2 sunty Interest dunt as menti- rcise of power dated mentior tioned not to d ndian Bank (e ount herein be	A Assets and E the undersigner unitisation and f (002) and in exe (Enforcement) oned hereinafte e undersingned s conferred on f red against each eal with the prop rstwhile Allahab	2 given Unde inforcement 1 being the A Reconstruction rrcise of power Rules 2002 r, calling then I has taken p im under sector account. Th perty/les and ad Bank) for wer attention	rr Sectio of Secur uthorized on of Fina ers confil issued a n to repa tion 13(4 e borrow any deal the amon n is invite	n 13(4) of the fity Interest of Officer of 1 ancia 'Asset erred under demand no y given to the on of the p of the said ers in particu- ing with the unts and into ed to provisi	the Securitizati Act, 2002 has the Indian Bar Section 13(12 vice on the d sunder-noted roperty/ ies de act read with r ilar and the pu property/les with rest thereon r	DPERTY) ion and Reconstruction been withdrawn) hk (erstwhile Allahabad ment of Security Interest) read with rules 3 of the ates noted against each borrowers and the public iscribed here in below in ules 8 of the said rules on blic in general are hereby II be subject to the charge mentioned againest each action (8) of section 13 of
SI.		he Account	A CONTRACTOR OFFICE	Charles and the second	Mortgaged p	roperty	Dt. of Demand Notice
Vo.	the second second second	Guarantor/		part & p	arcel of the p		Dt. of Possession Notice
-	Mon nch: Ujariyaw	gagor		cons	sisting of)		Amt. outstanding
			All these second as		a set the second	and a second a firm	29.09.2021
	Borrower: # Brick Field.	w/s warayani	All that part and parcel of the property consisting of Flat No. 504, Fifth Floor, Kunti Apartment,				
Borrower/Mortgagor: Mr. Narendra Kumar Tulsiyan S/o Mr. Bhagwati Prasad Tulsiyan. Guarantor: Mr. Narendra Kumar Tulsiyan Al R/o 607, FI Ganga Sagar Apartment, Ram Tirath Marg, Narhi, Lucknow-226001.		Udyan II, Raksha Khand, Sharda Nagar, Lucknow, Measuring Area: 82.72 Sq.Mir., Owner: Mr. Narendra Kumar Tulsiyan S/o Mr, Bhagwati Prasad Tulsiyan (Sale Deed No. 3864 dated 30.03.2017 registered at Bahi No. 01, Zild No. 22112, from Page 177 to 204), Boundaries (as per deed): East: Open to Sky, West: Corridor thereafter Flat No. 503, North: Stair, case thereafter Flat No. 501, South: Open to Sky.			* Interest accrued thereon		
at	e: 24.08.2022,	Place: Lucknow	v	Authoris	ed Officer, I	ndia Bank (En	stwhile Allahabad Bank)
_	lero	Road Phon E	ice : The I, Vasant CIN: e No. 01 -mail: sec Websi	Grand Kunj - L3591 1-4604 tretari te: ww	Plaza, P Phase-II 1DL1984 14220 F alho@he /w.heron	, New Del IPLC01735 ax No. 01 romotoco notocorp.o	Nelson Mandela hi - 110070 54, 1-46044399 prp.com,
						an an t se as tem	
('C are pu to	ompany') a given here rsuant to n issue dupli	re hereby inf ounder have l equests rece	ormed tha been repor ived from rtificates ir	t the O ted los concer	riginal Sha t/misplace ned share	are Certifica ed/stolen/n holders, th	lero MotoCorp Ltd. tes, details of which ot received and that e Company intends ire Certificates (Face
- 10	1	Sharehold	505	ice		ana ana M	Certificate No. of

Folio No.	Shareholders Name	Face Value	Distinctive Nos.	Certificate No.(s)	No. of Shares
HML0152977	RAJENDRA	Rs.10/-	1204466-1204515	24099	50
	NARAYAN DASH		16065588-16065597	208450	10
	SOUMENDRA		16065598-16065599	208451	2
	DASS		33875992-33876041	384837	50
	RAJASREE DASH		33876042-33876053	384838	12
	Inductional Condition	Rs.2/-	161540371-161540990	521235	620

Any person having objection to issue of duplicate Share Certificates, as mentioned herein above, may submit the same, in writing, with the Company marked to the 'Secretarial Department' at its Registered Office or send an email at secretarialho@heromotocorp.com within 7 days from the date of publication of this Notice. In the meanwhile, members of the public are hereby cautioned against dealing in the above mentioned Share Certificates.

For Hero MotoCorp Ltd.

lace : New Delhi Pate : 23.08.2022	-/Sd Dhiraj Kapoor Company Secretary & Compliance Officer
	MobiKwik
(FORMERLY KNOWN A Regd. Office : Unit No. 10 Sector-53 Tel: +91 (124) 4	KWIK SYSTEMS LIMITED AS ONE MOBIKWIK SYSTEMS PRIVATE LIMITED) 2, 1 st Floor, Block-B, Pegasus One, Golf Course Road, 3, Gurugram, Haryana-122003, India. 90-3344, CIN : U64201HR2008PLC053766 Amobikwik.com, Email : cs@mobikwik.com
the second stand in the local second stands and the second stands and the	IE 14 [™] ANNUAL GENERAL MEETING H OF AGM NOTICE & ANNUAL REPORT)
totice is hereby given that the 1 NobiKwik Systems Limited ("Co t 9:00 A.M. (IST) through vide without physical presence of t pplicable provisions of the Co with General Circular No. 14/20 020, Circular No. 20/2020 date	4" Annual General Meeting ("AGM") of the members of One ompany") will be held on Wednesday, September 28, 2022 to conferencing (VC) or other audio-visual means (OAVM) the members at a common venue, in compliance with al mpanies Act, 2013 ("Act") and rules made thereunder reac 20 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13 ad May 5, 2020 and Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 ate Affairs('MCA Circulars'), to transact the businesses as se
eport for the FY 2021-22 will those e-mail address are regis time India Private Limited. The vebsite at <u>www.mobikwik.com</u>	ICA Circulars, the Notice of the AGM along with the Annua be sent only through electronic mode to those members stered with the Company/Depository Participant (DP) /Link he Notice of AGM will also be available on the Company's and on the website of Central Depository Services (India wotingindia.com/noticeResults.jsp.
-Voting facility (before the AGM orth in the Notice. The facility of t the AGM will be made available acility and have not cast the fembers who have cast their articipate in the AGM through vetailed process and manner of	he facility to cast their vote electronically, through the remote I) and e-Voting facility (at the AGM), on all the resolutions se f casting votes will be provided by CDSL. Facility for e-Voting ole to those Members present in the AGM through VC/OAVN ir vote on the resolutions through remote e-Voting. The vote by remote e-Voting prior to the AGM may also attend h VC/OAVM but shall not be eligible to vote at the AGM of remote e-Voting, e-Voting at the AGM and instructions for OAVM is being provided in the AGM Notice.
egister their email address w	e not registered with the Company/DPs are requested to ith their respective DP's or with the Registrar and Share by at <u>delhi@linkintime.co.in</u> for receiving Annual Reports ons through electronic mode.
	· 영상 전환 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

(CIN: L999990P1961PLC001187) Regd. Office: Kamla Tower, Kanpur – 208 001 (India) Ph. No. 91 512 2371478-81 Fax: 91 512 2332665

E-Mail: cs@jaykayenterprises.com; Website: www.jaykayenterprises.com

INFORMATION REGARDING ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE

In view of current COVID-19 pandemic and restrictions imposed on the movement of people, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its circular dated May 05, 2022 read with circular dated May 05, 2020, April 08, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as 'the Circulars') permitted holding of the Annual General Meeting ('AGM') through Video Conference ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM'), without physical presence of the Members at a common venue. In compliance with these Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013, the AGM of the Members of Jaykay Enterprises Ltd. ('the Company') will be held at 02:00 P.M. on Tuesday, September 20, 2022 through VC/OAVM, to transact the business that will be set out in the Notice convening the AGM. In accordance with the aforesaid Circulars, the Notice of AGM will be sent only by electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Depository Participant ('DP') or the Company. These documents will also be available on the website of the Company at www.jaykayenterprises.com, on website of Central Depository Services (India) Ltd (CDSL) at www.evotingindia.com and on the website of Bombay Stock Exchange at www.bseindia.com. Members will be able to attend and participate in the AGM through VC/OAVM only. The Instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of the AGM and attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Company would be providing remote e-voting facility to its Members to enable them to cast their votes on the resolutions set out in the Notice of the AGM as well as the facility of voting through e-voting system during the AGM. The Company has engaged the services of CDSL for providing this facility to the Members. Detailed instructions in this regards will form part of the Notice of the AGM. The Members whose e-mail addresses are not registered with the DPs or the Company, are requested to register their e-mail addresses by following the instructions below: 1. For Physical shareholders- Please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the Share Certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to the Company's email id at cs@jaykayenterprises.com; investorservices@jaykaventerprises.com. SEBI vide its circular dated 3rd November, 2021, has mandated registration of PAN, Nomination and KYC details. Members holding shares in physical form are, therefore requested to submit their PAN. Nomination and KYC details to the Company, i.e., Jaykay Enterprises Limited, Kamla Tower, Kanpur-208001, U.P. by submitting duly filled Form ISR-1 and other relevant forms available on the website of the Company. For Demat shareholders -Please provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, Client Master or copy of Consolidated Account Statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to the Company's email id at cs@jaykayenterprises.com; investorservices@jaykayenterprises.com. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder, notice is hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, September 13, 2022 to Tuesday, September 20, 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

er) 1) M/s. NEEDO ELECTRONICS AND CALSPRIVATE LIMITED 250 BLOCK H SECTOR- 1 BAWANA DSIIDC IALAREADELHI 110039 ower)2) Mr. PREM KUMAR, ELECTRONICS AND ELECTRICALS PRIVATE PLOT NO- 250 BLOCK- H SECTOR- 1 BAWANA IALAREADSIDC DELHI 110039 OJA MADAAN MAURYA ENCLAVE PITAMPURA HDFC BANK 0088 LSDEL05118-190003265	All that - PROPERTY NO. 118 GROUND AND FIRST FLOOR BLOCK- PP PITAMPURA GOPAL MANDIRDELHI - 110034	Notice Date-23 rd July 2022 LSDEL05118-190003265 ₹3,45,73,330/- as on 21" July-2022 (Rupees Three Crore Forty- Five Lakh Seventy-Three Thousand Three Hundred Thirty Only)
s being taken for substituted service of the un-server (S) are advised to make the payments of amount der vithin 60 days from the date of publication of this notic tar Capital Finance LTD) further steps for taking pos provisions of Sec. 13 (4) of the Securitization and Rec and Rules there –to. The parties named above are a properties on which Indostar Capital Finance LTD ha	nanded above along with future inter e failing which (without prejudice to a session of the Secured Assets/Morto onstruction of Financial Assets and E lso advised not to alienate, create th	est and other charges accrued ny other right remedy available paged property will be initiated nforcement of security Interest ird party interest in the above- Sd/-
elhi .08.2022		(Supreet Singh) Authorised Officer
CAPIT	Ċ	

NFORMATION REGARDING THE 28TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS

Notice is hereby given that the 28th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Capital India Finance Limited ("Company") will be held through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") on Friday, September 23, 2022 at 09:30 A.M. (IST), to transact the businesses as set out in the Notice of AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and the rules made thereunder, the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations" read with all the applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") for convening general meetings through VC/OAVM The members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM, without their physical presence at a common venue. The members joining the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

Dispatch of Notice and Annual Report via e-mail:

In compliance with the Circulars, electronic copies of the Notice convening the AGM along with explanatory statement pursuant to Section 102 of the Act and Annual Report for the Financial year 2021-22, shall be sent within the prescribed timelines by e-mail to all those members whose email IDs are registered with the Company/ Depository Participant(s). The Notice of the AGM along with Annual Report shall also be available on the website of the Company at www.capitalindia.com, the website of the stock exchange where the equity shares of the Company are listed, i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and website of KFin Technologies Limited, Registrar and Share Transfer Agent of the Company ("RTA"/"KFintech") at https://evoting.kfintech.com/.

Electronic voting and participation at the AGM:

In terms of applicable regulatory provisions, the Company will be providing Members, the facility to cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of AGM ("remote e- voting"), to participate in the AGM through VC/OAVM facility and to electronically cast their votes during the AGM ("e-voting") and have engaged the services of KFintech for the same.

The facility for e-voting will be made available at the AGM to the Members who have not cast their vote(s) by remote e-voting.

The detailed procedure for casting the votes through remote e-voting/e-voting and manner for

	For One MobiKwik Systems limited
	(Formerly One MobiKwik Systems Private Limited)
	Sd/-
2022	Rahul Luthra
1	Company Secretary & Compliance Officer

_VINAYAK P@LYC@N Internati@nal Ltd. CIN: L25209BJ2009PLC030620)

Registered Office: 312, Navjeevan Complex, 29, Station Road, Jaipur-302006 Email: investor@vinayakpolycon.com, Website: www.vinayakpolycon.com Phone: 0141-2377007

NOTICE OF 13TH ANNUAL GENERAL MEETING. **BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION**

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT:

Date : August 23,

Place : Gurugran

- The 13th Annual General Meeting ('AGM') of the members of Vinayak Polycon International Limited will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual means ("OAVM") on Friday, the 16th September, 2022 at 12:00 p.m. to transact the Ordinary and Special Businesses, as set out in the Notice of AGM.
- 2. The Notice of the Meeting, Annual Report for the financial year ended on 31st March, 2022 and remote e-voting details have been sent in electronic mode to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/RTA/Depository. The date of completion of email of the notices to the shareholders is 23th August, 2022. The same is also available on the Company's website www.vinayakpolycon.com. Members seeking to inspect documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM can



attending the AGM through VC/OAVM shall be provided in the Notice of the AGM. The details shall also be made available on the website of the Company.

Manner of registering/ updating email addresses:

Pursuant to relevant circulars, the members who have not registered their e-mail address and in consequence, the notice could not be serviced may temporarily get their email address and mobile number registered with KFintech, by accessing the following link https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx. The members are requested to follow the process as guided to capture the email address and mobile number for sending soft copy of the notice and voting instructions along with the User ID and Password. In case of queries relating to the registration of E-mail addresses, the members, may write to einward_ris@kfintech.com

Alternatively, member may send an e-mail request at the email id einward.ris@kfintech.com along with the scan copy of the signed request letter providing the email address, mobile number, selfattested PAN copy and client master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for sending the Annual Report, Notice of AGM and the voting instructions.

Manner of receiving dividend:

Members, to receive the dividend directly into their bank account through Electronic Clearing Service (ECS) or any other means, are requested to register/update their complete bank details in the following manner:

- Members holding shares in physical mode may write an email to RTA or Company at einward.ris@kfintech.com or secretarial@capitalindia.com, respectively, along with the necessary documents inter alia (i) scanned copy of signed request letter which shall contain member's name, folio number, bank details (Bank account number, Bank and Branch name and address, IFSC, MICR details); (ii) a self- attested copy of PAN card; and (iii) copy of a cancelled cheque leaf (with members name printed on it).
- Members holding shares in Demat mode may reach out to their Depositories Participant(s) with whom they maintain their demat account(s) and get their bank account details registered/ updated in the demat account(s), by following the process advised by the Depository Participant(s)

In the event the Company is unable to pay the dividend to any Member by electronic mode, due to non-availability of the details of the bank account, the Company shall dispatch the dividend warrant/other payment instrument to such shareholder in permissible mode.

Instructions for updating details of shareholder(s):


SEBI vide its circular dated November 3, 2021, has mandated furnishing of certain mandatory information/documents viz. PAN, Address, Email, Mobile Number, Bank Account details, Nomination details, by the shareholders holding shares in physical form. Therefore, all the shareholders holding shares in physical form, may kindly contact the RTA at the address mentioned above for updation of the same in prescribed Form ISR-1. Norms for updation are also available on the website of the Company at www.capitalindia.com.

This Notice is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company in compliance with applicable circulars of MCA and SEBI.

For Capital India Finance Limited

Sd/-

Date: August 23, 2022	Company Secretary & Compliance Officer
Place: New Delhi	Rachit Malhotra
NAME WORK TREASURE	5u/-



Members holding shares either in Physical or in Dematerialized form, as on the cut-off date of 09th September, 2022, may cast their vote electronically on the businesses specified in the Notice of AGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL) from a place other than venue of AGM ("remote e-voting"). All the Members are informed that:

- i) The Businesses as set out in the notice of AGM may be transacted through voting by electronic means.
- ii) The remote e-voting shall commence on 12th September, 2022 at 09:00 A.M. and ends on 15th September, 2022 at 5:00 P.M.
- Cut-off date for voting is 9th September, 2022.
- iv) Any person, who acquires shares of the Company and become Member of the Company after dispatch of Notice of AGM and holding shares as on cut-off date i.e. 9th September, 2022, may also obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or RTA, MAS Services Limited at info@masserv.com. However, if the person is already registered with the NSDL for remote e-voting then the existing user ID & password can be used for casting vote.
- v) Members may note that:
- a) The remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting. Once the vote on a resolution is casted by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently;
- The facility for voting through e-voting shall be made available at the AGM;
- c) | The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM through VC/OVAM but shall not be entitled to cast their vote again: and
- A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting at the AGM;
- vi) E-voting Notice is available on the Company's website:www.vinayakpolycon.com and at the E-voting agency's website: https://www.evoting.nsdl.com/
- vii) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request at evoting@nsdl.co.in. Members may also write to the Shikha Natani, Compliance Officer at the investor@vinayakpolycon.com or at 312, Navieevan Complex, 29, Station Road, Jaipur-302006 or call at 91-141-2377007.

C) Book Closure:

Place: Jaipur

Date: 23.08.2022

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act. 2013. Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from 10th September, 2022 to 16th September, 2022 (both days inclusive).

For Vinayak Polycon International Limited
SdJ-
Shikha Natani (Company Secretary and Compliance Officer) Membership No.: 45901
Membership No.: 45901



	देश			जनसत	II 24 अगस्त, 2022 <mark>2</mark>		
फ्रेंद्र सरकार कब	पत्नी की फांसी प	र लटककर ग	मौत के ब	द पति ने र	बाया कीटनाशव		
क दागी मंत्रियों	कौशांबी, २३ अगस्त (भाषा)। 		मृत्यु के ब	ाद पति संतोष ने कीत	35) की फांसी के फंदे से लटक टनाशक खाकर खुदकुशी करने		
हो बचाती रहेगी	उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले 				अस्पताल में भर्ती कराँया गया है।		
		ऋण वसूली					
प्रियंका गांधी नसत्ता ब्यूरो	भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड-248171 ऋण वसूली अधिकारी -2, डी.आर.टी.,देहरादून ई-नीलामी सूचना						
दिल्ली, 23 अगस्त ।	जनता को एतद्दवारा सूचित किया जाता है कि ''जैसा बोलीदाता 27.09.2022 तक नीलामी के लिए आवेद	है जहां है'' के आधार पर बकाया राशि	V V	22 को ई–नीलामी बिक्री द्वारा उलि	लखित संपत्ति की बिक्री की जाएगी और संभावि		
कांग्रेस महासचिव प्रियंका	केस का शीर्षक एवं आर.सी. संख्या			वसूली योग्य राशि			
धी वाड्रा ने केंद्रीय गृह राज्य त्री अजय मिश्रा 'टेनी' द्वारा ज्सान नेता राकेश टिकैत के बारे की गई टिप्पणी को लेकर	पंजाब नेशनल बेंक बनाम मै0 ग्रेट इंडो राइजर्स एवं अन्य।आर सी नं0 266 नालामा का तिथिः 29.09.2022 (प्	प्लस ब्याज @ 12.00% F 5/2020 आधार पर वसूली तक प्रभा	🗛 साधारण घटता ब्याज ओ र अनिर्णित ।		19 तक शेष राशि। प्लस लागत/आर.सी. वं		
ालवार को केंद्र सरकार पर	लॉट नं0 रिजर्व कीमत	बयाना राशि 🛛 🛛 ब	ोली वृद्धि राशि	- नील	गमी का समय		
शाना साधा। उन्होंने सवाल या कि दागी मंत्रियों को कब	1 रू 12.00 लाख	रू 1.20 लाख	रू 50000/-	सुबह 11:00 बज	ने से दोपहर 01:00 बजे तक		
या कि पांग मात्रया का कथ 5 बचाते रहेंगे।	2 रू 11.85 लाख़	रू 1.20 लाख	रू 50000/-	सुबह 11:00 बज	ने से दोपहर 01:00 बजे तक		
उन्होंने ट्वीट किया कि सत्ता	3 रू 18.68 लाख	रू 1.90 लाख	रू 50000/-	सुबह 11:00 ब	जे से दोपहर 01:00 बजे तक		
संरक्षण के नशे का असर बए, 'गृह राज्य मंत्री एक के	(हर बार 5 मिनट के विस्तार के साथ यो बेची जाने वाली संपत्ति का विवरण:-	दे बोली बंद होने के समय के अ	अंतिम पांच मिनट में या	नीलामी के ऐसे विस्तारित	समय में रखी जाती है।)		
^{काया था।} डि हिंसा की एक भी	आयोजित की जायेंगी। 2. इच्छुक बोलीदाता को ज ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में स्थानांतरित कर देना च को उपरोक्त वेबसाईट पर अपलोड किया जाना चार्गि	ाहिए। 3. पहचान पत्रों की स्कैन कॉपी	में भविष्य के पत्राचार के लिप	ए पता (जैसे वोटर आई कार्ड/ड्राइ	विंग लाइसेंस/पासपोर्ट) और पैन कार्ड की कॉप		
टना त्रासदी : आरिफ	है। 5. संभावित बोलीदाताओं को यूजर आईडी/प	गसवर्ड प्राप्त करना आवश्यक है, जो	उपरोक्त में बोली लगाने के	लिए अनिवार्य हैं MSTC से	अग्रिम रूप से ई-नीलामी या 8800017260		
डा 23 अगस्त (जनसत्ता)।	9990696436 पर सम्पर्क कर सकते है, अन्य वि (मोबाइल नंबर -8800017260) से सम्पर्क क सम्पर्क कर सकते हैं। 6. संभावित बोलीदाता	5र सकते हैं। ई−नीलामी के लिए m	stc की हेल्प लाइन नं0 880	00017260, 9990696436	और पोर्टल Email: cs8238@pnb.co.in		
केरल के राज्यपाल आरिफ	सम्पर्क कर सकते हैं। 6. संभावित बोलीदाता IBAPI, MSTC से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। 7. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट https://www.mstcecommerce.com & https://www.ibapi.in देखें। अपनी बोली जमा करने और ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने से पहले नीलामी बिक्री के लिए विस्तृत नियम और शर्तो के लिए संपर्क करें हेल्प लाइन नंबर का वेबसाइट पर उल्लेख किया गया हैं। 8. बोलीदाता रू0 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र) के गुणक में प्रस्ताव में सुधार करेगा 9. यदि						
हम्मद खान ने कहा है कि भारत	नियम और शतों के लिए सपके करे हेल्प लाइन न नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में बो						
नेया की अकेली संस्कृति है	बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिकी व						
सने मानवता का दैवीकरण	द्वारा पुष्टि के आधीन है। 12. किसी भी नेटवर्क स				। के लिए आप अधोहस्ताक्षरी या श्री कुंवर सि		
या है दिव्यता का मानवीकरण या है। हमें तो चींटी के अंदर	नेगी, मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, रिकव			पपक कर सकते हैं।			
भगवान नजर आता है।		सप	त्ति की अनुसूची				
ट्रेन से दिल्ली जाने के दौरान	लॉट डिफॉल्टर/स्वामी/स नं0 विक्रय की जाने वाली संप		संपत्ति या उसके किसी भाग पर निर्धारित राजस्व	किसी भी ऋणभार का विवरण जिसके लिए संपत्ति उत्तरदायी	दावे, किसी भी संपत्ति को आगे रखा गया और प्रकृति और मूल्य पर कोई अन्य ज्ञा		
मवार की रात कुछ समय के	नं0 विक्वय की जाने वाली संप	पात्त का विवरण ।		है।	विशेष प्रभाव।		
ए गोंडा पहुंचे आरिफ मोहम्मद्	1 2		3	4	5		
न एक निजी शिक्षण संस्थान में कारों से रूबरू थे। भीड़ हिंसा	(i) संपत्ति 1:- 4400 वर्ग फीट और 408. 522एम है, ग्राम बेल्डा, परगना एवं तह	.92 वर्ग मीटर है जिसका खसरा न0 जमील रूडकी जिला इरिटार में स्थित	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं		
कारी से रूबरू थे। माड़े हिसा बारे में पूछे सवाल पर उन्होंने	है।	લાલા અંગુનગા ગળા હારકાર ના સ્વિત					
हा राज्य में यदि एक भी मासूम	(ii) संपत्ति 2:- प्लाट नं० जी-195 बेसमेंट	. ,	S ;				
ान मारा जाता है, तो यह अपने	े ' 1076/5/2/953, जो दिलशाद एक्स शाहदरा, दिल्ली 110095 में है।	पटशन, ग्राम झिलमिल ताहिरपुर,	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं		
प में त्रासदी है। संवैधानिक	(iii) संपत्ति 3:- 1.168 हेक्टेयर कृषि भूमि	जिसका खसरा नं. 101 और 152 है	<u>.</u>	~			
स्थाओं के बेजा इस्तेमाल करने	जो अलमासपुर, परगना और तहसील रु		ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं		
म्बंधी सवाल पर राज्यपाल ने हा कि बुनियादी तौर पर					।		
हो कि जुनियादी तीर पर वेधान के रक्षा की जिम्मेदारी ततः न्यायालय की होती है।	यह नोटिस 29.07.2022 के दिन मेरे हस्ताक्षर	ए वं मोहर के अंतर्गत जारी किया ?	गया है।		ऋण वसूला आधकारा - 1 डी.आर.टी., देहरादून		

आधिपत्य सूचना (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8–(1)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने आईआईएफएल होन फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिज्ञात (आईआईएफएल–एचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त-अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदेत्त शक्तियों द प्रयोगांतर्गत, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहां इसमें निम्न वर्णित उधारकर्ताओं / सह–उधारकर्ताओं को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि र 60 दिवसों के अंदर सूचना में सांकित राशि के प्रतिभुगतान हेतु एक मांग सूचना निर्गत की गई थी। ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगत करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा उधारकर्ता को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम विवरणित संपत्ति का उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत आधिपत्य ग्रहण कर लिया है। उधारकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन जो होगा, वह यहां इसमें निग्न अंकिताानुसार एक राशि तथा इस राशि पर ब्याज हेत् आईआईएफएल एचएफएल के प्रभाराधीन होगा।

"उधारकर्ता का ध्यानाकर्षण उस स्थिति में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्राक्धानों की ओर आमंत्रित किया जाता है, यदि उधारकत विक्रय अथवा हस्तांतरण हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व, किसी भी समय समस्त लागतों, प्रभारों एवं उपगत व्ययों के साथ ''आईआईएफएल–एचएफएल को देय धनराषियों का पूर्ण भुगतान कर देता है, ऐसी स्थिति में ''आईआईएफएल–एचएफएल'' द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विक्रय अथवा हस्तांतरप नहीं किया जाएगा और "आईआईएफएल–एचएफएल" द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण व विक्रयार्थ कोई भावी कदम नहीं उठाया जाएगा

देहरादून शाखा	सम्पत्ति के समस्त भाग तथा अंष इस प्रकार हैं: खसरा स	देयराशि (रु.) . रु. 17,23,004/- (रु प	सूचना ए की तिथि	ति
श्री अनुज कुमार गुप्ता,	2267 अधिमापन 110.50 वर्ग मीटर मौजा रायपुर परगन	सत्रह लाख तेईस हज	र 07 जून	20
श्रीमती शशिबाला गुप्ता	परवादून जनपद देहरादून, रायपुर, देहरादून, 248001	, चार मात्र)	2022	20
(प्रोस्पेक्ट संख्या 784241)	उत्तराखंड, भारत			
1				
2	Q			
अन्य विवरणों के लिए कृपया प्र	धिकृत अधिकारी से शाखा कार्यालय में संपर्क करें: 316–पूर्णि	मा प्लाजा, द्वितीय तल, जीए	नएस–रोड, द	हरादून–
तथा/अथवा निगमित कार्याल	यः भूखण्ड सं. 98, फेज–IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाप	गा ।		

संख्याः २०२२-सी-			नांकः 16/08/202	
"	'ई'' प्रक्रिया के माध्यम से खुली निविदा अ	नामंत्रित करने की सूच	वना	
निम्नलिखित कार्य खुली निविदा आम	ों के निष्पादन हेतु रायपुर मंडल पर ''ई''-नीलामी के माध मंत्रित की जाती हैं। काम की गुंजाइशः रायपुर मंडल पर	ध्यम से एसएलआर रिक्तियों व	को पट्टे पर देने हे	
04/3.9 टन स्थान कैटलॉग संख्या	का पट्टा अनुबंध प्रदान करने का ठेकाः लॉट संख्या	एसएलआर/वहन क्षमता	ई नीलामी प्रारंभ तिथि और लॉट के लिए समय	
कॉम/आर/	08527-एसएलआर-आर1-आर-वीएसकेपी-22-1	फ्रंट एसएलआर 04 टन	07.09.2022	
पीएम/ 04/22	08527–एसएलआर–एफ2–आर–वीएसकेपी–22–1	फ्रंट एसएलआर 04 टन	को 12.00 बजे	
	18426-एसएलआर-एफ1-दुर्ग-पुरी-22-1	फ्रंट एसएलआर 3.9 टन	-	
]	18205-एसएलआर-एफ1-दुर्ग-एनटीवी-22-1	फ्रंट एसएलआर 04 टन		
	18205–एसएलआर– आर1–दुर्ग–एनटीवी–22–1	रियर एसएलआर 04 टन		
कॉम/आर/	18207–एसएलआर–एफ1–दुर्ग–एआईआई–22–1	फ्रांट एसएलआर 04 टन	09.09.2022	
पीएम/05/22	18207-एसएलआर-आर1-दुर्ग-एआईआई-22-1	रियर एसएलआर 04 टन	को 12.00 बजे	
	08262-एसएलआर-एफ1-आर-बीएसपी-22-1	फ्रंट एसएलआर 04 टन		
	08262-एसएलआर-एफ2-आर-बीएसपी-22-1	फ्रंट एसएलआर 04 टन		
कॉम/आर/	12853–एसएलआर–एफ1–दुर्ग–बीपीएल–22–1	फ्रंट एसएलआर 04 टन	12.09.2022	
पीएम/06/22	12772-एसएलआर-एफ-1-आर-एससी-22-1	फ्रंट एसएलआर 3.9 टन	को 13.00 बजे	

अनुबंध का प्रकार: SLR को पट्टे पर देना। अनुबंध अवधिः 02 वर्ष

टिप्पणीः 1. ''ई'' -नीलामी में भाग लेने से पहले बोलीदाता को हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध ''ई'' -नीलामी के सभी प्रावधानों/ नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। 2. विषय ''ई'' —नीलामी रेलवे बोर्ड के परिपत्रों के अनुसार शासित है। (1) 2022 का माल विपणन परिपत्र संख्या 11 (सं. 2022/टीसी(एफएम)/10/04, दिनांक 13.06.2022) और समय-समय पर इसके संशोधन। (II) 2022 का माल विपणन परिपत्र संख्या 12 (सं. 2022/टीसी (एफएम)/10/04/पं. । दिनांक 14.06.2022 और समय–समय पर इसके संशोधन। (III) अनुबंध की मानक शर्त और अनुबंध के लिए विशेष शर्ते "ई" —नीलामी के माध्यम से दिए गए अनुबंधों पर लागू होंगी। 3. अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, डीआरएम कार्यालय परिसर, आरवीएच कालोनी, वाल्टेयर लेवल क्रासिंग के पास, रायपुर (छ.ग.) के कार्यालय के पते पर संपर्क कर सकते हैं। विषय ई-नीलामी पर रेलवे प्रशासन द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। पीआर/आर/सीनि. डीसीएम/एफएल/105 मंडल रेल प्रबंधक (वाणिज्य)/रायपुर

f South East Central Railway 🛽 🖻 @secrail

हाईकोर्ट का अधिकरण के निलंबन से जुड़े आदेश को

रद्द कर

इनकार	ŀ
मुंबई, 23 अगस्त (भाषा)।	
बंबई उच्च	I
न्यायालय ने	I
महाराष्ट्र प्रशासनिक	I
अधािक र ण	I
(एमएटी) के उस	I
आदेश को रद्द करने	I
से इनकार कर दिया	I
जिसमें एक वरिष्ठ	I
पुलिस अधिकारी का	I
निलंबन निरस्त	I
करके उसे बहाल	ľ
करने का निर्देश	I
दिया है। न्यायालय	I
ने कहा कि निलंबन	I
आदेश को अनिश्चित	I
काल तक बरकरार	I
नहीं रखा जा	I
सकता। एसपी स्तर	I
के अधिकारी धीरज	
पाटिल निलंबन के	

ड्राण्डयन अस्ति उत्तादरसाज जिल्हे आस्ति वसूली प्रबन्धन शाखा, रचना बिल्डिंग, 4था तल, 2, राजेन्द्र प्लेस, दिल्ली-110008, दूरभाष : 011-25758124, ई-मेल: iob1997@iob.in
अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना [प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8(6) के प्रावधानों के तहत]

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल सम्पत्ति/यों की ई-नीलामी बिक्री सूचना एतद्वारा जनसामान्य को एवं विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि इण्डियन ओवरसीज बैंक के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों, जिस पर इण्डियन ओवरसीज बैंक के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कब्जा कर लिया गया है, की बिक्री निम्नलिखित विवरणों के अनुसार ''जहाँ है वहाँ है'' ''जो है यही है'' ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर की जायेगी।

$\chi \xi$ shift χ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2$								
उन्नजिर गम की बकाय गणि जान क्या भाष या कि कार्य गणि जान क्या भाष या कार्य कार्य गणि गम वा बकाय गणि गम वा बि बकाय गणि गम वा बि बकाय गणि गम वा बा बा वा बा वा बा वा बा वा बा वा वा बा वा बा वा बा वा बा वा बा वा वा वा बा वा	ਸਟ ਨਸ਼ਰੇ ਸੀ		Concerns and the second s		अचल सम्पात का विवरण			
इन्कार मुंबई, 23 अगस्त (भाषा)। का मुंबई, 23 अगस्त (भाषा) का मुंबई, 23 मेद (भाषा) का मु	रद भारग ल	स.	जमानतियों का	ओवरसीज बैंक	नान नाम आप महि नरेर्न से	प्रकार		
Ş-(-C) (२ ग.			नाम	की बकाया राशि	ज्ञात प्रष्टण भार याद काइ हा			
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	इनकार			-	लॉट-1 कत के अधिकार रहित सम्पर्ण दितीय तल का दक्तिटेबल बंधक, तथा मेजेनादन पर अस्म			
Hards 2.3 3.17474 (1.5)	``	1.	मैसर्स रॉयल इंडस्ट्रीज					
(भाष)। (1) की बिकास गंग (2) की मांगी सींग गां (2) की मांगी सींग गां (3) की मांगी सींग मां (3) की मांगी सींग मांग (3) की मांगी सींग मांग (3) की मांगी सींग सींग (3) की मांगी सींग सींग (3) की मांगी सींग सींग (3) की मांगी सांग (3) की मांगी सांग (3) की मांगी सांग (4) कांग (4) की मांगी को का को मांगी सांग (3) की मांगी सांग (4) की मांगी सांग (4) की मांगी को का के की मांगा (4) की मांगी को का के मांगी (3) की मांगी (3) (4) कि मांगी सांग (3) को मांगी सांग (3) को मांगी को मांगी को मांग (3) (4) कि मांगी को का को मांग (3) की मांगा (3) की मांगा को का का मांग (3) को मांगा (3) की मांगा (3	मंबई. 23 अगस्त							
(1) मांगा (1) मांगा कि के पा (1) मांगा कि के प								08.09.2022 को
बंबई उच्च -पायालय ने सिकार प्रकार कि प्रायालय ने सहाराष्ट्र प्रशासनिक अ कि का क क रक्ष अस्ते मांगे (3) अमंग्री क्षेत्र मिंग (3) अमंग्री क्षेत्र में नाम (3) अमंग्री क्षेत्र में नाम (2) अमंग्री का क्षेत्र मांग (3) अमंग्री का क्षेत्र मांग (3) अमंग्री का क्षेत्र मांग (2) अमंग्री का क्षेत्र मांग (2) अमंग्री का क्षेत्र मांग (2) अमंग्री का क्षेत्र का क्षेत्र में नाम (2) अमंग्री का क्षेत्र में नाम (2) अमंग्री का क्षेत्र में नाम (2) अमंग्री का क्षेत्र में का (10) अमंग्री का क्षेत्र में का (10) अमंग्री काक्षेत्र मांग (10) अमंग्रे कांग (10) अमंग्री काक्षेत्र मांग (10) अपंग (11) कांग (11) कांग	(मापा) ।				5			
 स्वायालय ने महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकारी धीरज प्रमित्त निलंबन ने कहा कि निलंबन नहाँ रस्वा ज्यादेश करा र के अधिकारी धीरज प्रसा के ब्राक्स करा के अधिकारी धीरज प्रसा के ब्राक्स कर के अधिकारी धीरज प्रसा के ब्राक्स कर के ब्राक्स कर के स्वीक्ष क्रमा कर के का विर्देश कर के का विर्देश कर कर के का विर्देश कर के का विर्देश कर के का विर्देश कर के का विर्देश कर के का वा क्रम्स कर कर के का विर्देश कर के का वा क्रम्स कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर	नंगर्न उन्न			एप लागत		मांकेतिक		
 (5) औ रोमन लाल गर्ग (9) औरती तीमर (9) औरती तीमर (1) गिंद, गोनिक तीमा गर (1) औरती तीमर (1) औरती तीमर (1) औरती कर तोनिक तमा गर (1) औरती करिता मग्रो (1) औरती करिता मग्रा (1) औरती करी (1) त्य (1) कर (1) औरती करिता मग्रा (1) औरती कर (1) और	` .					साकातक		
HEIKUEZ, URINERIADA SI EL DE TOT ZU, URINERIA SI EL DE TOT ZU, URINERAL SI EL DE TOT ZU, URINERAL SI EL DE AL DEVENDE SI EL DE TOT ZU, URINERAL SI EL DE AL DEVENDE SI EL DE AL DE SI EL DE AL DEVENDE SI EL DE AL DE SI EL DE								
अ ि ि क र ण । (7) मिस मोनिका तोमर (8) श्री रोगेव कुमार सिंह (9) श्री स के उस आदेश को रद करने से इनकार कर दिया जिसमें एक वरिष्ट पुलिस अधिकारी का निलंबन निरस्त करके उसे बहाल करने का निर्देश वे कहा कि निलंबन ओक्ट्रिश को अनिश्चित के अधिकारी धीरत नहीं रखा जा सकता । एसपी स्तर अविका भी मींद्र का प्रस्ता का सकता । एसपी स्तर का अधिकारी धीर जो सकता । एसपी स्तर का अधिकारी धीर जो (7) मिस मोनिका तोमर (8) श्री रोगेव कुमार सिंह (9) श्रीमती मंत्र (9) श्रीमती मंत्र (9) श्रीमती मंत्र (10) श्रीमती मंत्र (11) वर्म मंत्र (12) स्त्र (11) वर्म मंत्र (12) स्त्र (13) स्त्र (14) स्त्र (14	महाराष्ट्र प्रशासनिक							
 (एमएटी) के उस, आदेश को रद करने से (8) श्री रावेश कुमार सिंह (9) श्रीमती मंजू सिंह (10) श्रीमती कविता मग्गे (8) श्री रावेश कुमार सिंह (9) श्रीमती मंजू सिंह (10) श्रीमती कविता मग्गे (10) श्रीमती कविता मगगे (10) श्रीमति कविता मगगे (11) श्रिमत कविता मगते कविता मगगे (11) श्रीत कविता मगते संह कवित्व मगते कवित मगत					5			7431/91/22
Silce in bit cg archi ki gramming the (10) श्रीमती मंतु (संह (10) श्रीमती कविता मग्गे (10) श्रीमती कविता मग्गेSilce in the first (10) श्रीमती मंतु (संह (10) श्रीमती कविता मग्गे (10) श्रीमती कविता मग्गे (10) श्रीमती कविता मग्गेSilce in the first (10) श्रीमती कविता मग्गे (10) श्रीमती कविता मग्गेSilce in the first (10) श्रीमती कविता मग्गे (10) श्रीमती कविता मग्गे (10) श्रीमती कविता मग्गेSilce in the first (10) श्रीमती कविता मग्गे (10) श्रीमती कविता मग्गे (10) श्रीमती कविता मग्गेSilce in the first (10) श्रीमती कविता मग्गे (10) श्रीमती कविता मग्गेSilce in the first (10) श्रीमती कविता मग्गे (10) श्रीमती कविता मग्गे (10) श्रीमती कविता मग्गेSilce in the first (10) श्रीमती कविता मग्गे (10) श्रीमती कविता मग्गेSilce in the first (10) श्रीमती कविता मग्गे (10) श्रीमती कविता मग्गे (10) श्रीमती कविता मग्गेSilce in the first (10) श्रीमती कवेता मग्गे (10) श्रीमती कविता मग्गे (10) श्रीमती कविता मग्गे (10) श्रीमती कविता मग्गेSilce in the first (10) श्रीमती कवेता मग्गे (10) श्रीमती कविता मग्गे (10) श्रीमती कविता मग्गे (10) श्रीमती कविता मग्गेSilce in the first (10) fi								
\vec{k} इनकार कर दिया (10) श्रमित कोवती 441 \vec{v}								
$ \left[\begin{array}{c} \overline{y}_{ett} \overrightarrow{tu} \overline{t} \ \overline{y}_{ett} \ \overline{y}_{ett} \ \overline{t} \ \overline{t} \ \overline{y}_{ett} \ \overline{x}_{ett} \ \overline{x}_{et$			(10) श्रीमती कविता मग्गो					
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$								
Ufert अधिकारी का निलंबन π								
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	पलिस अधिकारी का						रु. 20,000/-	
$a x c \dot{a}$ $a d c d d d d d d d d d d d d d d d d d $								
करने का निर्देश जेवेल्स प्रा.लिमिटेड 3.03.2017 तक जेवेल्स प्रा.लिमिटेड 3.03.2017 तक रु. 3.000.12 रु. Thit Thit								
\dot{h} training \dot{h} drew $yll, fer haloyll, fer haloyllyll, fer haloyll, fer h$		2.	मैसर्स शारदा जेम्स एण्ड	31.03.2017 तक				09/09/2022
दिया ह । न्यायालय 4,42,16,068.86 का सम्पूर्ण भाग। सीमाएँ : उत्तर : दुकान नं. बी-4, दक्षिण : दुकान नं. बी-2, पूर्व : जगत सेवक लॉट 4: रु. 31,39,200/- ने कहा कि निलंबन (रुपये चार करोड़ कं सम्पूर्ण भाग। सीमाएँ : उत्तर : दुकान नं. बी-4, दक्षिण : दुकान नं. बी-2, पूर्व : जगत सेवक लॉट 4: रु. 31,39,200/- आदेश को अनिश्चित ब्यालीस लाख (र्रपये चार करोड़ कंस्ट्रक्शन कं., पश्चिम : कॉरोडोर जगत सेवक कंस्ट्रक्शन कं. लॉट 5: रु. 36,18,000/- आदेश को अनिश्चित सोलह हजार बंगलीस लाख (र्ड-बिक्रय सम्पत्ति आईडी IOBA1997SG01) लॉट 2: राम्पत्ति भूं खेत्रफल 74.63 वर्ग फीट, सुपर कवर्ड एरिया 573 वर्ग फीट, आबादी ध्यान लॉट 7: रु. 11,34,000/- नहीं रखा जा छियासी पैसे मात्र) लंश समेंग्र उत्तर : दुकान नं. बी-7, दक्षिण : दुकान नं. बी-5, पूर्व : रोड, पश्चिम : लॉट 9: रु. 7,15,500/- सेकता। एसपी स्तर एवं लागते एवं लागते लॉट 3: सम्पत्ति मं. बी-17-478/20/बी-11, बेसमेंट दुकान नं. बी-5, पूर्व : रोड, पश्चिम : भौतिक गंग, रकबा आनुपातिक भूमि क्षेत्रफल 54.44 वर्ग फीट, सुपर कवर्ड एरिया 418 वर्ग फीट, आबादी लॉट 9: रु. 7,15,500/- सॉट 9: रं. सम्पत्ति मं. बी-17-478/20/बी-11, बेसमेंट दुकान नं. बी-11, माप क्षेत्रफल 6.04 वर्ग				रु.				
ने कहा कि निलंबन आदेश को अनिश्चित काल तक बरकरार नहीं रखा जा सकता। एसपी स्तर के अधिकारी धीरज पर्य निर्वान ने के (रूपये चार करोड़ बयालीस लाख सोलह हजार अड्सट एवं छियासी पैसे मात्र) तथा भावी ब्याज एवं लागतें कंस्ट्रक्शन कं., पश्चिम : कॉरोडोर जगत सेवक कंस्ट्रक्शन कं. लॉट 5: रु. 36,18,000/- लॉट 5: रु. 36,18,000/- लॉट 7: रु. 11,34,000/- लॉट 7: रु. 11,34,000/- लॉट 7: रु. 11,34,000/- लॉट 9: रु. 7,15,500/- अहसट एवं छियासी पैसे मात्र) सकता। एसपी स्तर कॉरोडोर जगत सेवक कंस्ट्रक्शन कं. (ई-बिक्रय सम्पत्ति आईडी IOBA1997SG02) लॉट 3: सम्पत्ति सं. बी-17-478/2ए/बी-11, बेसमेंट दुकान नं. बी-5, पूर्व : रोड, पश्चिम : कॉरोडोर जगत सेवक कंस्ट्रक्शन कं. (ई-बिक्रय सम्पत्ति आईडी IOBA1997SG02) लॉट 5: रु. 36,18,000/- लॉट 7: रु. 11,34,000/- लॉट 7: रु. 11,34,00/- रु. 13,35,00/- लॉट 7: रु. 11,34,000/-	दिया है। न्यायालय			4,42,16,068.86				
आदेश को अनिश्चित काल तक बरकरार नहीं रखा जा सकता। एसपी स्तर के अधिकारी धीरज मानिस किया बयालीस लाख भोलह हजार अड़सठ एवं (ई-बिक्रय सम्पत्ति आईडी IOBA1997SG01) लॉट 2: सम्पत्ति सं. बी-17-478/2ए/बी-6, बेसमेंट दुकान नं. बी-6, माप क्षेत्रफल 8.29 वर्ग गज, तकवा आनुपातिक भूमि क्षेत्रफल 74.63 वर्ग फीट, सुपर कवर्ड एरिया 573 वर्ग फीट, आबादी ध्यान संह कॉमशिंयल कॉम्पलेक्स, कुंदन नगर, जी.टी. रोड, बस स्टैण्ड, लुधियाना पर स्थित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग। सीमाएँ : उत्तर : दुकान नं. बी-7, दक्षिण : दुकान नं. बी-5, पूर्व : रोड, पश्चिम : तथा भावी ब्यान एवं लागते लॉट 6: रू. 4,52,700/- लॉट 7: रू. 11,34,000/- लॉट 8: रू. 5,94,000/- लॉट 9: रू. 7,15,500/- कॉरीडोर जगत सेवक कंस्ट्रक्शन कं., (ई-बिक्रय सम्पत्ति आईडी IOBA1997SG02) भौतिक भौतिक भौतिक	ने कहा कि निलंबन			(रुपये चार करोड़				
काल तक बरकरार नहीं रखा जा सलह हजार नहीं रखा जा सकता। एसपी स्तर के अधिकारी धीरज पर्य लागतें के अधिकारी धीरज पर्य तन के स्ट्रक्शन के स्टरक्शन के स्ट्रक्र स्ट क्या के स्ट्रक्शन के स्टरक्ष स्ट के स्ट्				बयालीस लाख				
नहीं रखा जा सिंह कॉमशिंयल कॉम्पलेक्स, कुंदन नगर, जी.टी. रोड, बस स्टैण्ड, लुधियाना पर स्थित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग। सीमाएँ : उत्तर : दुकान नं. बी-7, दक्षिण : दुकान नं. बी-5, पूर्व : रोड, पश्चिम : तथा भावी ब्याज फे अधिकारी धीरज प्राव लागतें एवं लागतें लॉट 3 : सम्पत्ति सं. बी-17-478/2ए/बी-11, बेसमेंट दुकान नं. बी-11, माप क्षेत्रफल 6.04 वर्ग गज, रकबा आनुपातिक भूमि क्षेत्रफल 54.44 वर्ग फीट, सुपर कवर्ड एरिया 418 वर्ग फीट, आबादी				सोलह हजार				
मिठा रखा जा छियासा पस मात्र) सम्पूर्ण भाग। सीमाएँ : उत्तर : दुकान नं. बी-7, दक्षिण : दुकान नं. बी-5, पूर्व : रोड, पश्चिम : सकता। एसपी स्तर तथा भावी ब्याज कॉरीडोर जगत सेवक कंस्ट्रक्शन कं., (ई-बिक्रय सम्पत्ति आईडी IOBA1997SG02) के अधिकारी धीरज एवं लागतें लॉट 3 : सम्पत्ति सं. बी-17-478/2ए/बी-11, बेसमेंट दुकान नं. बी-11, माप क्षेत्रफल 6.04 वर्ग प्राप्तिक गज, रकबा आनुपातिक भूमि क्षेत्रफल 54.44 वर्ग फीट, सुपर कवर्ड एरिया 418 वर्ग फीट, आबादी								
सकता। एसपा स्तर के अधिकारी धीरज गज, रकबा आनुपातिक भूमि क्षेत्रफल 54.44 वर्ग फीट, सुपर कवर्ड एरिया 418 वर्ग फीट, आबादी	नहा रखा जा						लॉट ९: रु. 7,15,500/-	
के अधिकारी धीरज गज, रकबा आनुपातिक भूमि क्षेत्रफल 54.44 वर्ग फीट, सुपर कवर्ड एरिया 418 वर्ग फीट, आबादी	सकता। एसपी स्तर					भौतिक		
गज, रकबा आनुपातिक भूमि क्षेत्रफल 54.44 वर्ग फीट, सुपर कवर्ड एरिया 418 वर्ग फीट, आबादी	के अधिकारी धीरज			एवं लागतें	लॉट 3 ः सम्पत्ति सं. बी–17–478/2ए/बी–11, बेसमेंट दुकान नं. बी–11, माप क्षेत्रफल 6.04 वर्ग			
					ध्यान सिंह कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, कुंदन नगर, जी.टी. रोड, बस स्टैण्ड, लुधियाना पर स्थित सम्पत्ति		नॉन 1. म 20.070/	
समय महाराष्ट्र राज्य का सम्पूर्ण भाग। सीमाएँ : उत्तर : दुकान नं. बी-12, दक्षिण : दुकान नं. बी-10, पूर्व : रोड, पश्चिम लॉट 1: रु. 39,870/- विदाय : कॉरीडोर जगत सेवक कंस्ट्रक्शन कं. (ई-ब्रिक्रय सम्पत्ति आईडी IOBA1997SG03) लॉट 2: रु. 1,84,950/-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							
विद्युत वितरण : कॉरीडोर जगत सेवक केस्ट्रक्शन के. (ई-बिक्रय सम्पत्ति आईडी IOBA1997SG03) लॉट 2: रु. 1,84,950/- लॉट 4: सम्पत्ति सं. बी-17-478/2ए/बी-18, बी-19, बेसमेंट दुकान नं. बी-18, बी-19, माप लॉट 3: रु. 1,35,000/-	विद्युत वितरण							

	सरफॉएसि अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना
--	--

आप निम्न वर्णित ऋणकर्ताओं/सह—ऋणकर्ताओं/गारंटरों ने मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लि. ''एमएचएफएल'' अब नवनामित पुनावाला हाउसिंग फाइनेंर लि. ''पीएचएफएल'' से अपनी अचल संपत्ति∕यों को बंधक रखकर संपत्तिगत सुविधा(ओं) के समक्ष आवास ऋण∕ऋणानेक प्राप्त किए हैं। आपने प्रतिभुगतान में चूक की है और इसीलिए आपके ऋण⁄ऋणानेक खातों को अनिष्पादनीय परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत एक मांग सूचना जो है वह बकाया धनराशियों की वसूली के लिए अंतिम ज्ञात पतों पर प्रेषित की गई थी, जो प्राप्तकर्ता को प्राप्त हुए बिना ही वापस लौट आई है। अतः, उस सूचना की विषयवस्तु को, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार, आपको सूचना की वैकल्पिक प्राप्ति हो इस रूप में तथा उस उपाय द्वारा, यहां इस विज्ञापन के अंतर्गत प्रकाशित किया जा रहा है।

ऋणकर्ताओं, सह—ऋणकर्ताओं, गारंटरों, प्रतिभूतियों, बकाया धनराशियों, धारा 13(2) के अंतर्गत प्रेषित मांग सूचना तथा उसके अंतर्गत अभ्यर्थित राशि के विवरण निम्नानुसार दिए गए हैं:

क्र. सं.	ऋणकर्ता, सह—ऋणकर्ता, गारंटर के नाम तथा ऋण राशि	प्रतिभूत परिसंपत्ति के विवरण	मांग सूचना तिथि	देय राशि (रु.) में			
1.	सुश्री सरकार, सुदीप्तो मित्रा ऋण राशिः रु. 883991.13/- ऋण सं: HL/0043/H/18/100118	बंधककृत संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश, जो उस भूखंड का भाग है जो खसरा सं. 633एसए मिन. पर ग्राम फरुर्खाबाद चिला. वन, वार्ड हिंद नगर, तहसील एवं जनपद लखनऊ में स्थित और इस प्रकार परिसीमित हैं: पूर्व– विक्रेता का भूखंड, पश्चिम– अरजी दीगर, उत्तर– अग्नू का खेत, दक्षिण– 15 फुट चौड़ी सड़क	13.07.2022	रु. 1045238.50 (रुपए दस लाख पैंतालिस हजार दो सौ अड़तीस एवं पचास पैसे मात्र) प्रतिभुगतान होने तक 15.00: वार्षिक की दर पर भावी ब्याज के साथ			
2.	सौम्य खरे, आद्या ऋण राशिः रु. 2215546.66 ऋण सं: HM/0043/H/17/100149	बंधककृत संपत्ति के संगस्त वह भाग तथा अंश, जो मकान के रूप में हैं जिसका निर्माण भूखंड सं. 04 पर किया गया है और यह भूखंड खसरा सं. 582 मिन. पर है जिसका अधिमापन 1000 वर्ग फुट है जो ग्राम बांथरा सिकंदरपुर, परगना–बिजनौर, तहसील–सरोजिनी नगर एवं जनपद लखनऊ में स्थित और इस प्रकार परिसीमित हैं: पूर्व– विक्रेता का भूखंड, पश्चिम– 25 फुट चौड़ी सड़क, उत्तर– मकान सं. 05, दक्षिण– 25 फुट चौड़ी सड़क	13.07.2022	रु. 2384804.90 (रुपए तेईस लाख चौरासी हजार आठ सौ चार एवं नब्बे पैसे मात्र) प्रतिभुगतान होने तक 14.30: वार्षिक की दर पर भावी ब्याज के साथ			
3.	विकास सोनी, मैसर्स श्री साई कृष्णा ज्वैलर्स, प्रियंका सोनी ऋण राशिः रू. 2013381.53 ऋण सं: HM/0043/H/18/100275	बंधककृत संपति के समस्त वह माग तथा अंश, जो मकान के रूप में हैं जिसका निर्माण उस भूखंड पर किया गया है जो खसरा सं. 377 मिन. पर है जिसका अधिमापन 750 वर्ग फुट है जो ग्राम मल्हपुर, वार्ड–हैदरगंज, तहसील एवं जनपद–लखनऊ स्थित और इस प्रकार परिसीमित हैं: पूर्व– विक्रेता का मकान, पश्चिम– 16 फुट चौड़ी सड़क, उत्तर– 12 फुट चौड़ी सड़क, दक्षिण– बलराम सिंह रस्तोगी का मकान	13.07.2022	रु. 1861167.86 (रुपए अट्ठारह लाख इकसठ हजार एक सौ सतसठ एवं छियासी पैसे मात्र) प्रतिभुगतान होने तक 12.50: वार्षिक की दर पर भावी ब्याज के साथ			
अतः आप ऋणकर्ता/ओं तथा सह—ऋणकर्ता/ओं/गारंटरों को निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना के 60 दिवसों के अंदर यहां इसमें उपरोक्त अं. कतानुसार भावी ब्याज के साथ उपरांकित मांगी गई राशि का पूर्ण भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर, अधोहस्ताक्षरकर्ता उपरोक्त वर्णित प्रतिभूति/यों को प्रवर्तित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने को बाध्य–विवश होंगे। कृपया ध्यान में रखें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको इस बीच प्रतिबंधित किया जाता है कि आप हमारी सहमति के बिना ऊपर–संदर्भित प्रतिभूतियों का विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। स्थानः लखनऊ दिनांकः 24.08.2022 क्रिया हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिज्ञात) प्राधिकत कार्यालय							
जेके इन्टरप्राइजेज लिमिटेड							
वार्षिक आम सभा व पुस्तक बंद होने की जानकारी							

कोविड—19 महामारी के मद्देनजर, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने दिनांक 8 अप्रैल, 2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020, दिनांक 5 मई, 2020, दिनांक 13 जनवरी, 2021 और दिनांक 5 मई, 2022 के परिपत्र ('परिपत्रों') द्वारा एक स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('VC')/अन्य ऑडीओ विजुअल मीन्स ('OAVM') के माध्यम से वार्षिक आम सभा ('AGM') आयोजित करने की अनुमति दी। इन परिपत्रों और कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों के अनुपालन में AGM के नोटिस में बताये जाने वाले कारोबार को संपादित करने के लिये जे के इन्टरप्राइजेज लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 76 वीं AGM VC/OAVM के माध्यम से मंगलवार, 20 सितंबर, 2022 को दोपहर 02:00 बजे आयोजित की जायेगी।